

# NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Regd. Off.: Lotus Green City, Sector 23 & 24 Bhiwadi, Alwar Bypass, 75 Mtr. Road, Daruhera, Rewari-123401

CIN No.: L24239HR1984PLC040797

Phone: 91-7419885077, Email: newtimeinfra2010@gmail.com

Website: [www.newtimeinfra.in](http://www.newtimeinfra.in)

---

Ref No.: NIL/BSE/13/2022-23

Date: 03/06/2022

To,  
The Manager  
BSE Limited,  
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai – 400001

**BSE Security code: 531959**

**SUB: Publication in Newspaper of Financial Results for the Quarter and Financial Year ended on 31<sup>st</sup> March, 2022 of the Company under Regulation 47 of SEBI [LODR Regulations, 2015]**

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 47(1) and (3) read with schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company hereby informs that Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) in accordance with Regulation 33, for the Quarter and Financial Year ended on March 31, 2022 of Financial Year 2021-22 have been published in **Jansatta (Hindi) & Financial Express (English)** Newspapers on 03<sup>rd</sup> June 2022, the copies whereof are attached herewith for your records.

Copies of the Newspapers publications are also available on the website of the Company and on the website of the BSE i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

You are requested to take the same on your records.

**Thanking You,  
For Newtime Infrastructute Limited**

ASHISH Digitally signed by  
ASHISH PANDIT  
PANDIT Date: 2022.06.03  
12:40:42 +05'30'

**Ashish Pandit  
DIN: 00139001  
(DIRECTOR)**

**Encl. as stated**

## मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली

जानसना संवाददाता नई दिल्ली, 2 जून।  
पांडव नगर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को ताल बहादुर शास्त्री अस्पताल से बुधवार देर रात को मिली थी। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस ने घायल की पहचान राजकुमार (35) के तौर पर की है।

# पर्यावरण नियमों का उल्लंघन, गाजीपुर बूचड़खाना हुआ बंद

जानसना संवाददाता नई दिल्ली, 2 जून।  
दिल्ली के गाजीपुर स्थित राष्ट्रीय राजधानी के एकमात्र बूचड़खाने को पर्यावरण संबंधी नियमों का कथित रूप से पालन नहीं करने की वजह से बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के निर्देश पर 30 मई को बूचड़खाने को बंद कर दिया गया। पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर बूचड़खाना शहर के एक बड़े हिस्से की मांस की जरूरतों को पूरा करता है। मांस व्यापारियों को आशंका है कि

डीपीसीसी से 30 मई को भेजे पत्र में कहा गया था कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की वजह से डीपीसीसी बूचड़खाना के संचालन के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले रहा है।  
बूचड़खाने के बंद होने से शहर में गोश्त की कमी हो सकती है और अवैध बंध को बढ़ावा मिलेगा।  
निगम के अधिकारी ने बताया कि डीपीसीसी से 30 मई को पत्र मिला था। इसमें कहा गया था कि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन की वजह से डीपीसीसी बूचड़खाना के संचालन के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले रहा है। यह तब से बंद है। यह मामला डीपीसीसी और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के बीच का है। इस न्यायिक कृ 29 बूचड़खाने ने 2009 में काम करना शुरू किया था जहां रोजाना करीब 1500

मैंसे और तकरीबन 13500 भेड़ व बकरों का बंध किया जा सकता है। उधर दिल्ली मांस व्यापारी संघ के प्रमुख अरशद अली कुरैशी के मुताबिक अगर बूचड़खाना अगले कुछ दिनों में नहीं खुला तो शहर में मांस की कमी हो सकती है और इसकी कीमत में भी वृद्धि हो सकती है। बूचड़खाने के बंद होने के नतीजे आने वाले दिनों में जरूर दिखेंगे। इससे मांस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पशुओं के अवैध बंध को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब तक मांस की कोई कमी नहीं है और न ही गोश्त के दाम बढ़े हैं। कुरैशी ने मांग की है कि अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बूचड़खाना जल्द से जल्द खुले ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो।

## सत्येंद्र जैन से पूछताछ का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा

प्रवर्तन निदेशालय नई दिल्ली, 2 जून (भाषा)।

धनशोधन मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी की अनुमति देने वाले निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संधी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने ईडी के वकील द्वारा याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज किया और मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन नियत किया।

आम आदमी पार्टी के नेता को 30 मई को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएएए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत ने 31 मई को उन्हें नौ जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। जैन को ईडी की हिरासत में भेजते हुए निचली अदालत ने उनकी अर्जी को अनुमति दी थी जिसमें कहा गया था कि आरोपी से जांच/पूछताछ के दौरान उनसे सुरक्षित दूरी पर एक वकील को मौजूद रहने की अनुमति दी जाए, जहां से वह आरोपी को देख सके, लेकिन सुन न सके।

ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निचली अदालत में इसका पुरजोर विरोध किया था। ईडी ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए याचिका बयार की और तत्काल सुनवाई की अनुमति मांगी। एंजंसी ने कहा कि एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पूछताछ के दौरान एक वकील की सहायता की अनुमति देने के समान तर्कों को खारिज कर दिया।

## जैन के विभाग सिसोदिया को सौंपे गए

जानसना संवाददाता नई दिल्ली, 2 जून।  
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यभार से मुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने उनको

## डाबरी इलाके में दृष्टिबाधित लड़की से बलात्कार, आरोपी हिरासत में

जानसना संवाददाता नई दिल्ली, 2 जून।  
दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के डाबरी इलाके में दृष्टिबाधित लड़की का कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।  
द्वारका जिला पुलिस उपकुल्ल संकर चौधरी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और पीछता से बात की। जांच के दौरान तकनीकी सहाय के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।  
उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया कि, 25 मई को दिल्ली में दृष्टिबाधित लड़की गलती से दूसरे बस स्टाप पर उतर गई। एक आदमी उसे रोड पार कराने के बहाने गली में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की से मिली और हम उसकी पूरी तरह मदद कर रहे हैं।

**पंजाब एण्ड सिंध बैंक**  
Punjab & Sind Bank  
पंजाब एण्ड सिंध बैंक **गुरु, वाहन और बंधक ऋण** प्रस्तावों के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष बिजनेस एजेंटों (डीएसए) (व्यक्तिगत/कमर्शियल) को नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।  
अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें, संपर्क सं. 011-40043832, 9818451431, ईमेल :zo.delhi2@psb.co.in, shivanu.sachdeva@psb.co.in या https://punjabandsindbank.co.in/Tenders पर जाएं  
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, अखिल दिल्ली-11  
बी-38/39, तृतीय तल, इण्डस्ट्रियल एरिया नारायणा, नई दिल्ली-110028

**पंजाब नेशनल बैंक**  
punjab national bank  
ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया  
मण्डलीय कार्यालय:- 1-2, रघुनाथ नगर, महात्मा गांधी मार्ग, आगरा  
चल/अचल सम्पत्तियों का कब्जा नोटिस (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत)  
वित्तीय आरिस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-3 के साथ सहपठित धारा-13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित बकायदार ऋणियों/गारंटियों/बंधककर्ताओं को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु खाते के सम्मूह अंकित तिथि को मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों/गारंटियों/बंधककर्ताओं के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्वारा आम जनता को एवं ऋणियों/गारंटियों/बंधककर्ताओं को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्तियों का उपरोक्त अधिनियम की धारा-13 (4) एवम् नियम के उपनियम-8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपोहस्ताक्षरी द्वारा कब्जा उनके सम्मूह अंकित तिथि को ले लिया गया है। उपरोक्तों का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्वारा ऋणियों/गारंटियों/बंधककर्ताओं को विशेषतः और जनसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि वृत्ति निम्न सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है, अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार पंजाब नेशनल बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मूह उल्लेखित किया गया है, के अध्याधीन होगा। ऋणियों एवं गारंटियों/बंधककर्ताओं का ध्यान, एक्ट के सेक्शन-13 के सब सेक्शन (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, कि वे उपलब्ध समय में बैंक के देयों को चुकता कर बंधक सम्पत्ति को वापिस छोड़ दें।

क्र.सं./बंधककर्ता/गारंटी/गारंटियों/बंधककर्ताओं का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस दिनांक	कब्जा दिनांक	मांग नोटिस 13(2) के अनुसार बकाया राशि
1. ऋणी/बंधककर्ता/गारंटी-श्री विजय महेश्वरी पुत्र श्री बालू लाल महेश्वरी और श्रीमती डिम्पल महेश्वरी पत्नी श्री विजय महेश्वरी शाखा-सिकन्दरा राउ, हाथरस	1. सांघिक बंधक व्यवसायिक दुकान स्थित मोहल्ला नमाला लाला, करवा और तहसील सिकन्दरा राउ, हाथरस सम्पत्ति स्वामी विजय महेश्वरी पुत्र बालू लाल महेश्वरी, क्षेत्रफल-8.20 वर्गमीटर, चौहददी- पूर्व-शेर बानों की दुकान, पश्चिम-डिम्पल की दुकान, उत्तर-कैलाश और अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण-जी0टी0 रोड। 2. सांघिक बंधक व्यवसायिक दुकान स्थित मोहल्ला नमाला लाला, करवा और तहसील सिकन्दरा राउ, हाथरस, सम्पत्ति स्वामी डिम्पल महेश्वरी पत्नी विजय महेश्वरी, क्षेत्रफल-8.20 वर्गमीटर, चौहददी- पूर्व-विजय महेश्वरी की दुकान, पश्चिम-रास्ता, उत्तर-कैलाश और अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण-जी0टी0 रोड।	07.07.2021	27.05.2022	₹ 14,92,330.10/- (चौदह लाख नवसे हजार तीन सौ तीस रुपये और दस पैसे) + ब्याज व अन्य खर्च जोकि दिनांक 01.04.2021 तक तथा भविष्य के देय ब्याज एवं अन्य खर्च।
2. ऋणी/बंधककर्ता/गारंटी-श्री प्रशांत शर्मा पुत्र श्री हरीश शर्मा और श्रीमती ममता शर्मा पत्नी श्री हरीश शर्मा शाखा-सिटी बान्ध मधुगढ़ी, हाथरस	सांघिक बंधक मकान सम्पत्ति स्थित 4/181, आवास विकास कॉलोनी, हाथरस सम्पत्ति स्वामी श्रीमती ममता शर्मा पत्नी श्री हरीश शर्मा, क्षेत्रफल-40.74 वर्गमीटर, चौहददी- पूर्व-मकान नम्बर 4/180, पश्चिम-मकान नम्बर 4/182, उत्तर-मकान नम्बर 4/174, दक्षिण-रोड 6.00 मीटर।	04.03.2022	27.05.2022	₹ 9,30,576.95/- (नौ लाख तीस हजार पचास चौर सौ चिहत्तर रुपये और पच्चास पैसे) + ब्याज व अन्य खर्च जोकि दिनांक 01.02.2021 तक तथा भविष्य के देय ब्याज एवं अन्य खर्च।

स्थान: हाथरस, दिनांक: 27.05.2022 प्राधिकृत अधिकारी

**KAPIL RAJ FINANCE LIMITED**  
(CIN - L65929DL1985PLC022788)  
Registered Office: 23, 1<sup>st</sup> FLOOR, North West Avenue, Club Road, West Punjab bagh, New Delhi-110026  
Admin Office: 204B, Platinum Mall, Jawahar Road, Ghazipur (East), Mumbai-400077  
Tel. No.-91-22-6127 5175, Email- kapiraj@gnail.com, Website- www.kapirajfinanceoltd.com.  
Extract of audited Financial Results for the Quarter & Year ended 31st Mar, 2022 (Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	0.00	3.30	0.00	75.01
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(2.01)	0.33	12.64	(9.67)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(2.01)	0.33	12.64	(9.67)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(2.01)	0.24	12.64	(9.67)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Equity Share Capital (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-	514	514	514	514
7.	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-	0.00	0.00	0.25	0.58
	1. Basic:	0.00	0.00	0.25	0.58
	2. Diluted:	0.00	0.00	0.25	0.58

Notes:  
1. The Financial Results for the Quarter/Year ended 31.03.2022 were approved and adopted i the meeting of Board of Directors held on 31st May, 2022  
2. This statement has been prepared in accordance with the Company's (Indian Accounting Standards), Rules, 2015 (INDAS).  
3. Segment reporting is not applicable as the company activity falls within a single business segment.  
4. Previous period's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary  
5. No Shareholders complaints/grievances has been received during the above referred period and no complaints are lying as on 31.03.2022.

For and on behalf of the Board of Directors of For Kapil Raj Finance Limited Sd/- Santosh Rani Director  
Place: Delhi Date: 31.05.2022

**NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED**  
CIN No.: L24239HR1984PLC040797  
Regd. Off.: LOTUS GREEN CITY SECTOR 23 & 24, BHIWADI ALWAR BYPASS 75 MTR. ROAD DHARUHERA Rewari HR-123401  
Tel: +91-7419885077 | Email: newtimeinfra2010@gmail.com | Website: www.newtimeinfra.in  
EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022 (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Un-Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Un-Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Un-Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
1.	Total Income from operations	-	-	-	-	-	-	-	0.10
2.	Profit/(Loss) before share of profit/(Loss) of associates and joint venture, exceptional items and tax	(113.20)	(106.35)	(112.91)	(464.73)	(375.88)	(111.44)	(115.89)	(80.34)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(113.20)	(106.35)	(112.91)	(464.73)	(375.88)	(111.44)	(115.89)	(80.34)
4.	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(2,285.94)	(110.51)	(112.91)	(2,641.64)	(365.72)	(2,284.18)	(120.06)	(80.34)
5.	Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional and/or extraordinary items)	(2,285.94)	(110.51)	(112.91)	(2,641.64)	(365.72)	(2,284.18)	(120.06)	(80.34)
6.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(2,284.69)	(110.51)	(112.63)	(2,640.38)	(365.43)	(2,349.96)	(95.61)	218.44
7.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46
8.	Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	(770.51)	1,869.87	-	-	9,119.55
9.	Earnings per Share (Face Value of Rs 1/- each) for continuing operations)	(a) Basic	(1.34)	(0.06)	(0.07)	(1.55)	(0.21)	(1.38)	(0.06)
	(b) Diluted	(1.34)	(0.06)	(0.07)	(1.55)	(0.21)	(1.38)	(0.06)	(0.34)

Notes to financial results:  
1. The above Audited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 1st June, 2022 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 1st June, 2022.  
2. In accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory auditor have performed an audit of the standalone and consolidated financial results of the Company for the year ended 31st March, 2022.  
3. This statement has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulations of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (as amended).  
4. Other Comprehensive Income includes net movement of re-measurement of defined benefit plans and alike adjustments.  
5. The Disclosure of statement of Assets and Liabilities and statement of Cash Flow as per Regulation 33(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are an integral part of these results.  
6. Exceptional items for the year represents loss on fair valuation of investments of Rs.2172.75 Lakh. This statement has been prepared in accordance with Ind AS-109.  
7. Previous year figures have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary to conform to the current Period presentations.  
8. The figures for the last quarter are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year up to March 31, 2022 and the unaudited published year-to-date figures up to December 31, 2021, being the date of the end of the third quarter of the financial year which were subject to limited review by the statutory auditors.  
9. As the Company has one Operating Segment and disclosure under Ind AS 108-Operating Segment is not applicable.  
10. The management has considered the possible impact of disruption caused by restriction imposed to contain COVID-19 spread, on the Company, including of assessment of liquidity and going concern assumption and carrying value of assets, as at 31st March 2021. Based on such assumption, it has concluded that none of the assets are likely to be impaired. The company will continue to monitor the future economic conditions and its consequent impact on the business operations, given the nature of the pandemic.  
11. The Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022 is available on the website of the Company https://www.newtimeinfra.in/ and the website of BSE Ltd.

For and on behalf of Board of Directors  
NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED  
Sd/-  
Ashish Pandit  
(Whole Time Director)  
DIN: 00139001  
Date: 03/06/2022  
Place: Delhi

**पंजाब नेशनल बैंक**  
punjab national bank  
शाखा कार्यालय: बी-22बी, विद्यावती पलेस, मांच मार्केट सेक्टर 27, नोएडा, यू.पी.-201301, फोन सं. 0120-2541050  
जोकरों के किराए के बकायों के लिए सूचना  
पंजाब नेशनल बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय को सुनिश्चित जमा कर/बकायों/किराए पर वसूली के लिए उल्लेख नीचे दी गई तिथि को किया गया है।  
निकर किराएदार द्वारा किराए का भुगतान नहीं किया गया है और उनके किराए किराए का बकाया है। बैंक ने जोकरों के बकायों किराए के भुगतान के लिए सर्वोच्च न्यायालय को तीन नोटिस जारी किए हैं, लेकिन अभी भी किराया जमा नहीं किया है।

क्रम सं.	लॉकर सं.	ग्राहक का नाम एवं पता
1.	AA-85	श्री विनोद कपूर, जवाहर लाल नेहरू नगर, मांच मार्केट, नोएडा, यू.पी.-201301

एतद्वारा लॉकर शरितों को सूचित किया जाता है कि यदि एतद्वारा सूचित जमा किराया 7 दिनों के भीतर बैंक को प्राप्त नहीं होता है तो लॉकरों को किराया डोह के खण्डों के अनुपालन में सर्वोच्च न्यायालय को जोड़ दिया जाएगा और बैंक लॉकर को पूरे या सामग्री के कुछ भाग को कार्बनिक या निजी बिक्री द्वारा अपने देयों को बचाने करेगा। बैंक के देयों को संवृष्टि हो जाने के बाद रोष किराए और/या लॉकर को सामग्री संबंधित लॉकर शरित के पूरे जोड़िए, किन्हीं और/या लॉकर पर बैंक द्वारा आरोपित किया जाएगा। यदि ऐसी बिक्री की प्रक्रियाओं से बैंक के देयों को बचाने में संवृष्टि नहीं होती है, लॉकर शरित को के लिए लिम्बेदार होंगे।  
दिनांक: 01.06.2022, शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक

**'फेसलेस' सुविधा वाला पहला राज्य है दिल्ली : मुख्यमंत्री**  
जानसना संवाददाता नई दिल्ली, 2 जून।  
फेसलेस सुविधा और आर्टीफो टो ड्रुइविंग टेस्ट ट्रेक के मामले में दिल्ली पूरे देश को रास्ता दिखा रही है।  
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सराय काले खां आरटीओ दफ्तर के निरीक्षण के दौरान कहा कि देश में फेसलेस सुविधा शुरू करने वाला दिल्ली पहला और अकेला राज्य है। हमने पिछले साल यथावत विभाग में यह सुविधा शुरू की।  
उन्होंने कहा कि सराय काले खां आरटीओ दफ्तर में पहले रोजाना दो हजार लोग आते थे, अब यहां सौ से भी कम लोग आ रहे हैं। सभी का काम घर बैठे होता है। रिश्तवतखीर बिल्कुल बंद हो गई है। पिछले नौ-दस महीनों में करीब 16 लाख दिल्लीवासी फेसलेस सर्विस का फायदा उठा चुके हैं।

**यूको बैंक**  
YCO BANK  
एच 2/3, राकेश मार्ग, नेहरू नगर, गाजियाबाद, 20300-201001  
कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-8(1) के तहत)  
जबकि वित्तीय आरिस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) के अंतर्गत यूको बैंक, राकेश मार्ग, नेहरू नगर, गाजियाबाद, 20300 शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अपोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 08.10.2021 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदार: श्रीमती सविता पत्नी श्री रणवीर सिंह को सूचना में उल्लिखित राशि ₹.7,41,189.80 (सात लाख इकतालिस हजार एक सौ नवासी रुपये एवं अरसी पैसे मात्र) 31.03.2021 तक, उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर 01.04.2021 से भविष्य के ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अपोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 02 जून 2022 को ले लिया है। कर्जदार/गारंटियों को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सूचना दिया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन ₹.7,41,189.80 (सात लाख इकतालिस हजार एक सौ नवासी रुपये एवं अरसी पैसे मात्र) 31.03.2021 तक, 01.04.2021 से आगे ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ यूको बैंक, राकेश मार्ग, नेहरू नगर, गाजियाबाद, 20300 शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।  
ऋणियों/गारंटियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छोड़ने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।  
अचल सम्पत्ति का विवरण  
श्रीमती सविता पत्नी श्री रणवीर सिंह के नाम में परिमाण 169 वर्ग गज की सम्पत्ति के सी भाग एवं हिस्से जो खसरा नम्बर 675, ग्राम नगला फिरोज मोहनपुर, परगना जलालाबाद, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद, 20300 में स्थित है। निम्नानुसार विवरण है:  
उत्तर: श्री मोपाल का प्लॉट  
पूर्व: श्री गिरिराज का प्लॉट  
दक्षिण: श्री सुरेंद्र का प्लॉट  
पश्चिम: सड़क 12 फीट चौड़ी  
स्थान: गाजियाबाद  
दिनांक: 02.06.2022 प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक

बाढ़ के पानी से प्यास बुझाई जाएगी : भारद्वाज  
जानसना संवाददाता नई दिल्ली, 2 जून।  
जलबोर्ड के उपाध्यक्ष सीएम भारद्वाज ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार बाढ़ के पानी का सदुपयोग कर दिल्ली की प्यास बुझाएगी। दिल्ली में पल्ला बाढ़ क्षेत्र परियोजना के चलते भूजल स्तर में लगातार सुधार हो रहा। देश के सूखाग्रस्त व पानी की किल्लत झेल रहे राज्यों के लिए यह परियोजना बेहतरीन उदाहरण साबित होगी। यह बात भारद्वाज ने परियोजना स्थल के निरीक्षण के दौरान कही।



**PUBLIC NOTICE**  
 My clients Mr. O.P. Kohli and Mrs. Sudeh Kumari W/o Mr. O.P. Kohli both R/O Street no. 12, Govind Pura, Krishna Nagar, Delhi-110051, have debarred/disclaimed their son Mr. Kamal Kumar Kohli and their daughter in law Mrs. Nisha Kohli due to their bad act, conduct and misbehavior with us from our entire movable and immovable properties and have broken down all ties and relation with them. My clients shall not be responsible for their act & conduct and will not have concern with them in future. They shall be responsible themselves for their act.  
**Keshav Nagi (Advocate)**

**PUBLIC NOTICE**  
 My client Mr. Gopal Singh S/o Sh. Gopal, PUNJAB W/O SH. GYAN SINGH BOTH R/O H-96, VIJAY VIHAR, PHASE - II, SECTOR-4, ROHINI, DELHI-110085 HAVE DEBAR / DISOWNED THEIR SON AKASH AND HIS WIFE SMT. DIVYA AND THEIR SON NAKSH PAL FROM THEIR MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES STANDS IN THE NAME OF MY CLIENT AS OF DELHI OR OUTSIDE OF DELHI. MY CLIENTS SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR THEIR ANY LEGAL & ILLEGAL ACTIVITY INFUTURE.  
**Sd/- KUNAL CHADHA Advocate CH.NO. 4-A & 11, NEAR TREASURY GATE, TIS HAZARI COURTS, DELHI-110054**

**PUBLIC NOTICE**  
 General Public is hereby informed that under instructions from & on behalf of my client Mr. Jitender Singh Tanwar S/o Sh. Barwan Singh Tanwar R/o WZ-25622, Indrapuri, Central Delhi-12 has debarred his son Mr. Vipin Kumar S/o Jitender Singh Tanwar & his daughter-in-law Mrs. Swati W/o Vipin Kumar both R/o unknown (Gurgaon) and legal heirs due to their misbehavior, disobedience, illegal activities, from all of my client's movable & immovable assets and has also ceased all his relations in every respect with them. Any person or persons who ever deals with them shall do that entirely at his/her own risks, costs and responsibility & my client shall not be responsible for dealing with them if any person do so.  
**J.C. Tripathi (Advocate) M-4, Civil Side, Tis Hazari Courts, Delhi-54**

**PERSONAL**

**I, Rakesh Pratap Singh, s/o Saraju Prasad Singh, R/o 10218/11, Bhagat Singh Nagar, Manak Pura, Karol-Bagh, New Delhi-110005, have changed my name to Rakesh Singh, permanently.**  
 0040616996-10

**I, M.D. Nassim Akhtar, s/o Azimuddin Khalifa, R/o 19, Samman Bazar, Bhogal, Delhi-110014, have changed my name to MD Nasim Akhtar, permanently.**  
 0040617018-11

**I, hitherto known as Raj Kumar Choudhary alias Raj Kumar alias R K Choudhary S/O Late Sh. Piara Lal Choudhary residing at F-162, Vikaspuri, West Delhi, New Delhi-110018 have changed my name and shall hereafter be known as Raj Kumar Choudhary.**  
 0040616975-1

**I, Poonam Nougai W/o Manoj Kumar R/o Flat No.639, Om Apartment Sec-14, Pocket-2, Dwarka, Delhi-110078 have changed my name to Poonam.**  
 0040616996-2

**ABHINAV LEASING AND FINANCE LIMITED**  
 (CIN : L65100DL1984PLC018748)  
 Regd. Off. : S-524, 1st Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092  
 Email: abhinavleaseinfintd@gmail.com | Website: www.abhinavleaseinfintd.in | Ph: 011-40108941

**AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/YEAR ENDED 31st MARCH, 2022**  
 (Rs. In Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter Ended 31/03/2022 (Audited)	Quarter Ended 31/03/2021 (Audited)	Year Ended 31/03/2022 (Audited)	Year Ended 31/03/2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	1,495.52	463.76	3150.38	7441.69
2.	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional/ Extraordinary items)	(2.75)	(13.46)	8.64	6.72
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional/Extraordinary items	(2.75)	(13.46)	8.64	6.72
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional / Extraordinary items)	-	(9.92)	6.4	8.67
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit /Loss for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)	(2.75)	(9.92)	6.4	8.67
6.	Equity Share Capital	499.80	499.80	499.80	499.80
7.	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-	-
8.	Earning Per Share (Face Value of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)	-0.01	-0.02	0.013	0.017
	a Basic	-0.01	-0.02	0.013	0.017
	b Diluted	-0.01	-0.02	0.013	0.017

**Note:** The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter Ended 31st March, 2022, filed with the Stock Exchanges. The full format of the financial results is available on the website of the Stock Exchange [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on Company's website [www.abhinavleaseinfintd.in](http://www.abhinavleaseinfintd.in)

For Abhinav Leasing and Finance Limited  
**Sd/- Mamta Agarwal**  
 Managing Director

Date: 30.05.2022  
 Place: New Delhi

**"IMPORTANT"**  
 Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any articles or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**PUBLIC NOTICE**  
 The General Public is hereby informed that my client Mr. Vikas Sharma S/o Sh. S.D sharma R/o B-40, street no.8, new modern shahdara, Delhi have severed all their relations with complete entire family (father, mother, wife, son, sister) due to unfavorable conditions and for the same he was in depression too. All of above reasons, no any relationship from his family members from last year and living independently. My above named client has also disowned and debarred his self from all their movable and immovable properties of his family.  
**Praveen Rastogi (Advocate) Enrol No-D2/24/06**

**POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Rule 8-(1)**  
 Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IFL Home Finance Limited (Formerly known as India Inflow Housing Finance Ltd.) (IFL-HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002, issued a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrower / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IFL HFL for an amount mentioned herein under with interest thereon.  
 The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "IFL-HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IFL-HFL" and no further steps shall be taken by "IFL-HFL" for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of secured asset (immovable property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
Mrs. Ranju Devi, Mr. Santosh Singh & Sakshi General Store (Prospect No. IL1009640)	All that piece and parcel of: Plot No. Wz-20, First Floor, area admeasuring 50 Sq. Yds., Front Side, Prem Nagar, Utam Nagar New Delhi-110059.	Rs.26,43,848/- (Rupees Twenty Six Lakh Forty Three Thousand Eight Hundred Forty Eight Only)	19-Mar-2022	30-Mar-2022

For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jagat Showroom, Moti Nagar, New Delhi and/or Corporate Office: IFL Tower, Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.  
 Date: 03-June-2022 Place: Delhi  
**Sd/- Authorised Officer For IFL Home Finance Limited**

**बैंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda**  
**ROSARB, LUCKNOW**  
 1st. Floor, V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Ph. 0522-6677636/6677681, Email: sarluc@bankofbaroda.co.in

**Sale Notice for Immovable Properties "APPENDIX-IV-A {See Proviso to Rule 6(2) & 8(6)}**  
 E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6 (2) & Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002  
 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis for recovery of below mentioned account/s. The details of Borrower/s/Guarantor/s/Secured Assets/s/Dues/Reserve Price/E-Auction date & time, EMD and Bid increase Amount are mentioned below:

**Date of Auction: 05.07.2022** **Last Date of EMD Submission: 04.07.2022 upto 4.00 P.M.**

Sl. No.	Name & Address of The Borrower/Guarantors	Description of the Immovable Property with known encumbrances, if any	Total Dues	Date & Time of E-Auction	Reserve Price/EMD/ Bid Increase Amount	Status of Possession (Symbolic/Physical)	Property Inspection Date & Time
1.	<b>Borrower: Mr. Vinay Kumar S/o Shyam Lal and Mrs. Suman W/o Vinay Kumar, Both residing at C/o Pappu Chaudhari Raghvendra Colony, Bakshi Ka Talab, Lucknow 226021</b> <b>Permanent Address: Village Dundpur, Post- Gangaganj (Kunwarpur) Tehsil Sidhoul, District Sitapur- UP, Pin-261303</b>	All that part and parcel of the property consisting of EWS House No. H-5/287, Situated at Barawan Khurd, Amrapali Yojna Ward Hardoi Road, Lucknow, Area: 40.74 Sq.Mtr., <b>Owner: Mr. Vinay Kumar and Mrs. Suman, Boundaries: East: House No. 5/286, West: House No. H-5/288, North: House No. 5/306, South: 6.00 mtr Wide road</b>	Rs. 18,89,454.85 + Intt. & Other Charges (Minus Amt. if any paid after the demand notice or possession notice)	05.07.2022 02.00PM to 06.00 PM	Rs. 13,10,000/- (RP) Rs. 1,31,000/- (EMD) Rs. 10,000/- (Bid Increase Amount)	Physical	01.07.2022 between 10.00PM to 04.00 PM
2.	<b>Borrower: Mr. Mukesh Kumar S/o Late Ram Ratan &amp; Mrs. Madhu Devi, 04/329, Rajni Khand, Sharda Nagar, Lucknow.</b>	All that part and parcel of the property consisting of Residential House 4/329, Rajni Khand, Sharda Nagar, Lucknow. Admeasuring 30 Sq.mt. <b>Bounded East:</b> House No. 4/328, <b>West:</b> House No. 4/330, <b>North:</b> House No. 4/306, <b>South:</b> 4.5 mtr. wide road.	Rs. 11,13,900.00 + Intt. & Other Charges (Minus Amt. if any paid after the demand notice or possession notice)	05.07.2022 02.00PM to 06.00 PM	Rs. 16,78,000/- (RP) Rs. 1,67,800/- (EMD) Rs. 10,000/- (Bid Increase Amount)	Symbolic	01.07.2022 between 10.00PM to 04.00 PM
3.	<b>Borrower: M/s Jubilant Associates Prop. Anandita Tiwari, House No. 6/59, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow. Principal Place of Business: 1/192, Viraj Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow-226010</b> <b>Work Place: Khasra No. 171, Iradat Nagar Sitapur Road, Godawari Mill Compound, Lucknow UP 226021</b> <b>Proprietor/Guarantor: Mrs. Anandita Tiwari W/o Marut Sut Tiwari, House No. 6/59, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow. Guarantor: Mr. Marut Sut Tiwari S/o HP Tiwari, House No. 6/59, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow.</b>	All that part and parcel of the property consisting of Plot No. D-6/388, situated at Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow. Area: 115.50 Sq.Mt., Owner: Mrs. Anandita Tiwari W/o Mr. Marut Sut Tiwari, <b>Boundaries (as per sale deed): East: 9 Mtr. wide road, West: House No. C-6/400 &amp; C-6/401, North: House No. D-6/387, South: House No. D-6/389</b>	Rs. 77,88,924.66 + Intt. & Other Charges (Minus Amt. if any paid after the demand notice or possession notice)	05.07.2022 02.00PM to 06.00 PM	Rs. 64,45,000/- (RP) Rs. 6,44,500/- (EMD) Rs. 10,000/- (Bid Increase Amount)	Symbolic	01.07.2022 between 10.00PM to 04.00 PM
4.	<b>Borrower's: (1) M/s Tiwari Book Point &amp; Stationers through its proprietor Sri Ashwini Kumar Tiwari, UGF-33 &amp; 34, Awadh Plaza, Adil Nagar, Kursi Road, Lucknow-226022</b> <b>(2) Mr. Ashwini Kumar Tiwari, 534/10-A, Sai Sewa Ashram, Aliganj, Lucknow-226024</b> <b>Guarantor: Mr. Anant Kumar Verma S/o Sri Shiv Shankar Verma, Vill. &amp; Post Manpur, Pargana-Pratapgari, Tehsil-Nawabganj, Barabanki-225001</b>	Equitable Mortgage of Shop No. UGF 33 & 34 Awadh Complex, measuring 20.910 sq. mtr. (225 sq. ft). situated at Village Adil Nagar, Ward-Shankarpurwa, District-Lucknow in name of Sri Ashwani Kumar Tiwari S/o Sri Triloki Nath Tiwari, <b>Bounded (as per sale deed): East: Shop of other person, West: Staircase, North: 8 ft. wide common passage, South: Property of other person.</b>	Rs. 22,23,230.50 + Intt. & Other Charges (Minus Amt. if any paid after the demand notice or possession notice)	05.07.2022 02.00PM to 06.00 PM	Rs. 20,44,000/- (RP) Rs. 2,04,400/- (EMD) Rs. 10,000/- (Bid Increase Amount)	Symbolic	01.07.2022 between 10.00PM to 04.00 PM

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Bank of Baroda secured website i.e. [www.bankofbaroda.in/e-auction.htm](http://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm) & <https://fbapi.in>. Also, prospective bidders may contact the authorised officer on Mobile No. 7565008656, 7565008657, 7565008653  
 Date: 03.06.2022 Place: Lucknow  
**Authorised Officer, Bank of Baroda**

**TRIDEV INFRAESTATES LIMITED**  
 (Formerly Known as Ashutosh Paper Mills Ltd)  
 (CIN : L65100DL1988PLC033812)  
 S-524, F/F, School Block, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi - 110092  
 Email: ashutoshpapermills@gmail.com | Website: www.tridevinfraestates.in | Ph: 011-43206710

**AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/YEAR ENDED 31st MARCH, 2022**

Sl No.	Particulars	Quarter Ended 31/03/2022 (Audited)	Quarter Ended 31/03/2021 (Audited)	Year Ended 31/03/2022 (Audited)	Year Ended 31/03/2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	12.59	195.59	12.59	197
2.	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional/ Extraordinary items)	1.36	1.20	2.6	1.27
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional/Extraordinary items	1.36	1.20	2.6	1.27
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional / Extraordinary items)	1.35	1.06	1.92	0.94
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit /Loss for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)	1.35	1.06	1.92	0.94
6.	Equity Share Capital	652.54	652.54	652.54	652.54
7.	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-	-
8.	Earning Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.021	0.016	0.029	0.014
	i Basic	0.021	0.016	0.029	0.014
	ii Diluted	0.021	0.016	0.029	0.014

**Note:** The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended 31st March, 2022, filed with the Stock Exchanges. The full format of the financial results is available on the website of the Stock Exchange [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on Company's website [www.tridevinfraestates.in](http://www.tridevinfraestates.in)

For Tridev Infraestates Limited  
**Sd/- Sunil Kumar Agarwal**  
 Managing Director

Date: 30.05.2022  
 Place: New Delhi

**SARNIMAL INVESTMENT LIMITED**  
 (CIN : L65100DL1981PLC012431)  
 508, 5th Floor, Arunachal Building, Barakhamba Road, New Delhi - 110001  
 Email: sarnimalinvestltd@gmail.com | Website: www.sarnimal.com | Ph: 011-22481097

**AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31, 2022**

Sl No.	Particulars	Quarter Ended 31/03/2022 (Audited)	Quarter Ended 31/03/2021 (Audited)	Year Ended 31/03/2022 (Audited)	Year Ended 31/03/2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	11.12	58.76	11.12	70.31
2.	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional/ Extraordinary items)	(1.01)	(0.31)	0.94	0.18
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional/Extraordinary items	(1.01)	(0.31)	0.94	0.18
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional / Extraordinary items)	(1.25)	(0.12)	0.7	0.13
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit /Loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(1.25)	(0.12)	0.7	0.13
6.	Equity Share Capital	449.8	449.8	449.8	449.8
7.	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	0	0	0	0.00
8.	Earning Per Share (Face Value of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations)	0	0.00	0.0015	0
	i Basic	0	0.00	0.0015	0
	ii Diluted	0	0.00	0.0015	0

**Note:** The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended 31st March, 2022, filed with the Stock Exchanges. The full format of the financial results is available on the website of the Stock Exchange [www.mseil.in](http://www.mseil.in) and on Company's website [www.sarnimal.com](http://www.sarnimal.com)

For Sarnimal Investment Limited  
**Sd/- Sunil Kumar Agarwal**  
 Nitin Agarwal

Date: 30.05.2022  
 Place: Delhi

**SVAM SOFTWARE LIMITED**  
 (CIN : L65100DL1992PLC047327)  
 224 G/F Swayam Seva Co-Operative Housing Society Ltd, Jhilmil, Delhi-110032  
 Email: svamsoftwaredtd@gmail.com | Website: www.svamsoftwaredtd.in | Ph: 011-40363174

**STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/YEAR ENDED 31st MARCH, 2022**

Sl No.	Particulars	Quarter Ended 31/03/2022 (Audited)	Quarter Ended 31/03/2021 (Audited)	Year Ended 31/03/2022 (Audited)	Year Ended 31/03/2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	68.92	91.33	76.9	91.33
2.	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional/ Extraordinary items)	0.03	73.69	2.53	73.69
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional/Extraordinary items	0.03	73.69	2.53	73.69
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional / Extraordinary items)	0.03	72.24	0.13	72.24
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit /Loss for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)	0.03	72.24	0.13	72.24
6.	Equity Share Capital	1688.90	1688.90	1688.90	1688.90
7.	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	0	0	0	0
8.	Earning Per Share( Face Value of Rs.10/- each)	0	0	0	0
	a Basic	0	0.43	0.001	0.428
	b Diluted	0	0.43	0.001	0.428

**Note:** The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended 31st March, 2022, filed with the Stock Exchanges. The full format of the financial results is available on the website of the Stock Exchange [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on Company's website [www.svamsoftwaredtd.in](http://www.svamsoftwaredtd.in)

For Svam Software Limited  
**Sd/- Manisha Agarwal**  
 Managing Director

Date: 30.05.2022  
 Place: Delhi

**NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED**  
 CIN No.: L24239HR1984PLC040797  
 Regd. Off.: LOTUS GREEN CITY SECTOR 23 & 24, BHIWADI ALWAR BYPASS 75 MTR. ROAD DHARUHERA Rewari HR-123401  
 Tel: +91-7419885077 | Email: newtimeinfra2010@gmail.com | Website: www.newtimeinfra.in

**EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022**  
 (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED						
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended				
		31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Un-Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Un-Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	
1.	Total Income from operations	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	
2.	Profit/(Loss) before share of profit /(Loss) of associates and joint venture, exceptional items and tax	(113.20)	(106.35)	(112.91)	(464.73)	(375.88)	(111.44)	(115.89)	(80.34)	(502.68)	(412.05)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(113.20)	(106.35)	(112.91)	(464.73)	(375.88)	(111.44)	(115.89)	(80.34)	(502.68)	(412.05)
4.	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(2,285.94)	(110.51)	(112.91)	(2,641.64)	(365.72)	(2,284.18)	(120.06)	(80.34)	(2,679.59)	(401.89)
5.	Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional and/or extraordinary items)	(2,285.94)	(110.51)	(112.91)	(2,641.64)	(365.72)	(2,284.18)	(120.06)	(80.34)	(2,679.59)	(401.89)
6.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(2,284.69)	(110.51)	(112.63)	(2,640.38)	(365.43)	(2,349.96)	(95.61)	218.44	(2,781.17)	(538.10)
7.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46	1,703.46
8.	Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	(770.51)	1,869.87	-	-	-	6,345.58	9,119.55
9.	Earnings per Share (Face Value of Rs 1/- each) for continuing operations)	(1.34)	(0.06)	(0.07)	(1.55)	(0.21)	(1.38)	(0.06)	0.12	(1.63)	(0.34)
	(a) Basic	(1.34)	(0.06)	(0.07)	(1.55)	(0.21)	(1.38)	(0.06)	0.12	(1.63)	(0.34)
	(b) Diluted	(1.34)	(0.06)	(0.07)	(1.55)	(0.21)	(1.38)	(0.06)	0.12	(1.63)	(0.34)

**Notes to financial results:**  
 1. The above Audited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 1st June, 2022 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 1st June, 2022.  
 2. In accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory auditor have performed an audit of the standalone and consolidated financial results of the Company for the year ended 31st March, 2022.  
 3. This statement has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder